



भिन्नों का जोड़ (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{9} + \frac{2}{9} =$$

$$\frac{4}{6} + \frac{1}{5} =$$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{6} =$$

$$\frac{1}{7} + \frac{3}{8} =$$

$$\frac{3}{7} + \frac{3}{5} =$$

$$\frac{3}{9} + \frac{6}{7} =$$

$$\frac{1}{9} + \frac{6}{9} =$$

$$\frac{3}{8} + 3\frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{7}{8} =$$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{7} =$$



भिन्नों का जोड़ (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{5}{9} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{4}{6} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{1}{7} + \frac{3}{8} = \frac{29}{56}$$

$$\frac{3}{7} + \frac{3}{5} = \frac{36}{35} = 1\frac{1}{35}$$

$$\frac{3}{9} + \frac{6}{7} = \frac{25}{21} = 1\frac{4}{21}$$

$$\frac{1}{9} + \frac{6}{9} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{3}{8} + 3\frac{1}{2} = \frac{31}{8} = 3\frac{7}{8}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{7}{8} = \frac{29}{24} = 1\frac{5}{24}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{7} = \frac{11}{14}$$